

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपरखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1965/जेष्ठ 11, 1887

No. 78]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1965/JYAISTHA 11, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st June, 1965

G.S.R. 809.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 80 of the Finance Act, 1965 (10 of 1965), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 82/65—Central Excises dated the 11th May, 1965, namely:—

In the said notification, in the Table, in column (2) against S. No. 3, for the words 'Viscose rayon yarn', the following shall be substituted, namely:—

"Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulose derivatives or regenerated cellulose or both"

[No. 90/65.]

R. N. MISRA, Jt. Secy.

